

ALAN SCOTT
ENTERPRISES LIMITED
(Formerly: ALAN SCOTT INDUSTRIES LIMITED)

29th November, 2023

To,
The Manager,
Department of Corporate Services,
BSE Limited,
Mumbai

Scrip Code: 539115

Dear Sir,


Sub: Submission of Newspaper Notice for First Call Money

We are enclosing a copy of newspaper notice published today i.e. 29th November, 2023 in respect of First Call Money as per relevant provision of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, in all editions of:

- i) Financial Express (English national daily newspaper)
- ii) Jansatta (Hindi national daily newspaper) and
- iii) Pratahkal (Marathi being the regional language in the place where Registered Office of is located).

Please and acknowledge the receipt.

Thanking You,
For Alan Scott Enterprises Limited
(Formerly known as Alan Scott Industries Limited)


Sushma P N
Chief Financial Officer




● TROUBLED EDTECH SAYS IN TALKS TO SETTLE MATTER

BCCI drags Byju's to NCLT

Tribunal to hear the case on December 22

FE BUREAU Bengaluru, November 28

IN YET ANOTHER setback for Byju's, the Board of Control for Cricket in India (BCCI) has taken the troubled edtech firm to the National Company Law Tribunal (NCLT) in a likely dispute over pending dues related to sponsorship of the Indian cricket team, said a report on Tuesday. The case was filed by BCCI on September 8, but was officially registered by NCLT on November 15. The case between the BCCI and the parent company of Byju's, Think and Learn, was scheduled for a hearing on



THE CASE FILE

- The case was filed on September 8, but was officially registered by NCLT on November 15
- The case between the BCCI and the parent company of Byju's, Think and Learn, was scheduled for a hearing on November 28
- The development comes months after Byju's announced that it would not renew its branding partnerships, citing a cost-cutting strategy

November 28, according to the NCLT website. On Tuesday, the website updated that the case will be heard again on December 22. When contacted, a Byju's spokesperson said, "We are in discussions with the BCCI to settle the matter, and we hope to achieve that soon."

The development comes months after Byju's announced that it would not renew its branding partnerships, citing a cost-cutting strategy to achieve profitability. The company previously had three significant branding partnerships with the BCCI, ICC (International Cricket Council)

and FIFA (Federation Internationale de Football Association), all of which were up for renewal in 2023. However, the company said earlier this year that it would not renew any of them. It is not clear whether the BCCI case pertains to this or some other issue.

Tata Power targets to double profit, revenue by FY27: CEO

RAGHAVENDRA KAMATH Mumbai, November 28

TATA POWER IS looking to double its profit and revenue in the next three years with the major focus on renewable energy, chief executive and managing director Praveer Sinha said on Tuesday. "We will double our revenues and PAT (profit after tax) by FY27," he told reporters at the company's Bhivpuri power plant near Mumbai. Sinha said the company is expecting a profit of over ₹4,000 crore and expects revenues to cross ₹60,000 crore in FY24.

The company posted a PAT of ₹2,158 crore on revenue of ₹30,446 crore in H1FY24. It had posted a PAT of ₹3,810 crore on revenue of ₹56,033 crore in FY23. "In revenues, what we used to do in a full year, we are doing in half a year. In PAT, what we were doing in a year, we are doing it in a quarter," he said. Every quarter, the company is seeing improvement in numbers and it will do much better in the coming quarters, Sinha added.

Renewable push The company has ear-

HIGH VOLTAGE



- Posted a PAT of ₹2,158 crore on revenues of ₹30,446 crore in H1FY24
- Logged a PAT of ₹3,810 cr on revenues of ₹56,033 cr in FY23
- It is deploying 45% of its capex in clean energy projects till FY27

PRAVEER SINHA, MD & CEO, Tata Power

In revenues, what we used to do in a full year, we are doing in half a year. In PAT, what we are doing in a year, we are doing it in a quarter.



marked a capex of ₹60,000 crore till FY27 and will deploy 45% of the amount in clean energy projects. "About 4000 MW (megawatt) is under various stages of construction which will be completed in 24 months," Sinha said. He further said by 2030, 70% of the company's capacities will be clean energy and by 2045, 100% will be clean energy. Currently, 40% of its

capacities are in clean energy. The company has 5,500 MW of clean energy now, including 3,200 MW of solar

and 1,000 MW of wind and 1,300 MW of hydel power. The capacities are expected to reach 9,500 MW in the next 24 months. The company is building a 1,000 MW pumped hydro storage project in Bhivpuri and another similar of 1,800 MW in Shirota near Pune. The company will invest ₹13,000 crore for both the projects. "We will do it in a debt-to-equity ratio of 70:30," Sinha said. "Bhivpuri will be operational by mid-2027 and Shirota by 2028," he added. The company is also exploring generation of 9 GW (gigawatt) of power in existing reservoirs. On transmission projects, Sinha said the company will bid for more such projects which can be built on time and generate returns aimed by the company.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपर
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROPAR
 Special Recruitment drive for the post of Associate Professor and Assistant Professor in SC/ST/OBC/EWS categories
 Indian Institute of Technology RoPar invites applications from qualified candidates for the post of Associate Professor and Assistant Professor Grade-III from the candidates belonging to SC/ST/OBC/EWS categories in the specific areas of specializations in the Departments of Biomedical Engineering, Chemistry, Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer Science & Engineering, Electrical Engineering, Humanities & Social Sciences, Mathematics, Mechanical Engineering, Metallurgical and Materials Engineering and Physics.
 For details regarding educational qualifications, experience, etc. please visit the institute website <https://www.iitrpr.ac.in/jobs/faculty-positions>

Adani-Total starts green hydrogen blending

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, November 28

ADANI TOTAL GAS, the city gas joint venture of the Adani group and French energy giant TotalEnergies, has started blending green hydrogen in natural gas they sell to households for cooking purposes and industries as fuel in Ahmedabad.

The percentage of green hydrogen, produced by splitting water using renewable electricity, to be blended in gas will gradually be increased to 8%, the company said in a statement. "As part of the project, ATGL will employ the latest technologies to blend green hydrogen (GH2) with natural gas for over 4,000 residential and commercial customers at Ahmedabad, Gujarat," it said. GH2 is produced using electrolysis of water with electricity generated by renewable energy. Hydrogen blending is less carbon intensive than burning gas but has the same heating capabilities. The pilot project is expected to be commissioned by Q1FY25 (April 2024 to March 2025) and "the percentage of green hydrogen will be gradually increased in the blend to up to 8% or more, depending on regulatory approvals", the statement said. "After successfully completing the pilot, hydrogen blended fuel will be supplied stepwise to larger parts of the city and other license areas of AGTL," it said. "As per studies, an up to 8% hydrogen blend can reduce emission by up to 4%."

ATGL has the licence to retail CNG to automobiles and piped gas to household kitchens and industries in 38 geographical areas (GAs). It has full-fledged city gas distribution networks in Ahmedabad and Vadodara in Gujarat, Faridabad in Haryana and Khurja in Uttar Pradesh.

TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS - BUYBACK OF EQUITY SHARES

Tata Consultancy Services Limited ("Company") has sent the Letter of Offer and Tender Form dated November 28, 2023 for Buyback to all the Eligible Shareholder(s) holding Equity Shares as on the Record Date (Saturday, November 25, 2023) through electronic means to those Eligible Shareholder(s) who have registered their e-mail ids with the Company/Depositories.

Further, if the Company or the Registrar to the Buyback receives a request, along with details as specified under paragraph 20.1 of the Letter of Offer, from any Eligible Shareholder for a physical copy of the Letter of Offer/Tender Form, the same shall be provided to such Eligible Shareholder.

The schedule of Buyback activities is as follows:

Activity	Day and Date
Date of Opening of the Buyback Offer Period	Friday, December 1, 2023
Date of Closing of the Buyback Offer Period	Thursday, December 7, 2023
*Last date and time for receipt of required documents by the Registrar to the Buyback (Refer Form No. 20.10.2 on page 36 of Letter of Offer)	Thursday, December 7, 2023 by 5 p.m. (IST)

*If the Eligible Shareholder holds Equity Shares in physical form.
 *For terms and conditions of Buyback and other details, please refer the Letter of Offer.

The details of the entitlement ratio is as follows:

Category of Eligible Shareholder	Ratio of Buyback (i.e. Buyback Entitlement)*
Reserved category for Small Shareholders	1 Equity Share for every 6 Equity Shares held on the Record Date
General category for all other Eligible Shareholders	2 Equity Shares for every 209 Equity Shares held on the Record Date

*For further information on Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category, please refer para 19.12 on page 33 of the Letter of Offer.

Eligible Shareholders can also check their entitlement on the website of the Registrar to the Buyback by following the steps given below:

- 1) Click on <https://web.linkintime.co.in/Offer/Default.aspx>
- 2) Select the name of the Company - "Tata Consultancy Services Limited - Buyback - 2023"
- 3) Select holding type - "Demat" or "Physical" or "PAN"
- 4) Based on the option selected above, enter your "DPID CLID" or "Folio Number" or "PAN"
- 5) Then click on View button
- 6) The entitlement will be provided in the pre-filled "FORM OF ACCEPTANCE-CUM ACKNOWLEDGEMENT"

In case you have not received the Letter of Offer and Tender Form, the same is also available on the website of the Company at (<https://www.tcs.com/investor-relations/events/tcs-buyback-2023>), the SEBI (www.sebi.gov.in), the NSE (www.nseindia.com), the BSE (www.bseindia.com), the Manager to the Buyback (www.jmf.com) and the Registrar to the Buyback (www.linkintime.co.in).

Capitalised terms used in this Advertisement and not defined herein shall have the same meaning as ascribed in the Letter of Offer.

For Tata Consultancy Services Limited
 Sd/-
Pradeep Manohar Gaitonde
 Company Secretary

Place : Mumbai
 Date : November 28, 2023

Registered Office:
 9th Floor, Nirmal Building, Nariman Point, Mumbai 400 021.
 Corporate Identity Number (CIN): L22210MH1995PLC084781
 Tel: +91 22 6778 9595
 Email: investor.relations@tcs.com Website: www.tcs.com

Alipay to exit Zomato in \$400-mn deal

M SRIRAM Mumbai, November 28

CHINESE PAYMENTS GROUP Alipay plans to sell its 3.4% stake in food delivery giant Zomato for nearly \$400 million through block deals on the stock exchanges, according to three sources and a Reuters review of the deal's term sheet. Alipay, owned by Ant Group, will offload its entire 3.4% stake in the deal, the term sheet seen by Reuters showed.

Bank of America and Morgan Stanley are advisers on the deal, which is likely to be executed later this week on Indian exchanges, said the three sources, who declined to be named as the plan is private. Zomato, Bank of America



STAKE SALE

- Alipay, owned by Ant Group, will offload its entire 3.44% stake via block deals
- The block deals are set to be executed at ₹111.28 per share, a 2.2% discount to Zomato's close on Tuesday

and Morgan Stanley did not immediately respond to a request for comment. Alipay also did not respond outside regular business hours. Zomato shares have surged more than 90% this year, after falling by more than half in 2022 when tech stocks struggled around the world.

Alipay "wants to cash out... the (market) timing is good," said the first source, referring to the rapid rise in Zomato's shares in recent months. The block deals are set to be executed at ₹111.28 per share, a 2.2% discount to Zomato's close on Tuesday, the term sheet said.

In October, Japan's SoftBank sold a 1.1% stake in Zomato, which is the country's biggest food delivery service. Demand for online ordering has rapidly grown in recent years, prompting companies like Zomato to aggressively expand. Alipay's exit from Zomato comes as other Chinese investors have been paring their stakes in Indian companies. In August, China's Antfin sold a 10.3% stake in Paytm. Tech stocks such as Zomato have staged a rebound after drubbing last year amid a market meltdown, when investors also raised questions about sky-high valuations of some Indian startups that had made their stock market debut in recent years. — REUTERS

ALAN SCOTT ENTERPRISES LIMITED
 (Formerly known as Alan Scott Industries Limited)
 Corporate Identification Number: L33100MH1994PLC076732
 Registered Office: Unit no. 302, Kumar Plaza, 3rd Floor, Near Kalina Masjid, Kalina Kuria Road, Santacruz (East), Mumbai - 400029, Maharashtra, India. | Tel: +91 61786000 / 01
 E-mail: alanscottcompliance@gmail.com | Website: thealanscott.com | Contact person: Sneha Shukla

This is only an advertisement for information purpose and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This notice does not constitute an offer or invitation or inducement to purchase or sell or to subscribe for, any new securities of the Company. All capitalised terms used and not defined here shall have a meaning assigned to them in the Letter of Offer dated 16th June, 2023 filed with BSE Limited and with SEBI for information and dissemination purposes.

FOR THE ATTENTION OF REGISTERED MEMBERS OF PARTLY PAID-UP SHARES (ISIN IN9273F01012) HELD AS ON RECORD DATE I.E. 10th NOVEMBER, 2023

FIRST CALL NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES

In terms of the Letter of Offer, the Company had issued partly paid-up Equity Shares on a rights basis, to its existing eligible shareholders at an issue price of ₹ 30/- per share including a share premium of ₹ 20/- per rights equity share, in the ratio of 1 (one) right equity share for every 1 (one) fully paid-up equity share held as on the record date i.e. 10th November, 2023.

In accordance with the terms of the issue as mentioned in the Letter of Offer, the Company had received ₹ 10/- (comprising ₹ 3.50 towards face value and ₹ 6.50 towards share premium) per partly paid-up equity share as application money and partly paid-up equity shares were allotted on 21st July, 2023. The balance amount of ₹ 20/- per partly paid equity share (comprising ₹ 6.50 towards face value and ₹ 13.50 towards share premium) is payable in one or more subsequent call(s) as determined by the Board of Directors of the Company at its sole discretion.

The Board of Directors of the Company ("Board") has at its meeting held on 31st October, 2023 decided to make the First Call of ₹ 10/- per partly paid-up equity share (comprising ₹ 3.50 towards face value and ₹ 6.50 towards security premium) in respect of 18,25,377 outstanding partly paid-up equity shares of the face value of ₹ 10/- each, issued by the Company on rights basis pursuant to the Letter of Offer.

The Board had fixed 10th November, 2023 as record date ("Call Record Date") for the purpose of determining the holders of partly paid-up equity shares, to whom the notice for the First Call ("the First Call Notice") will be sent. The Company has intimated the Call Record Date to the BSE Limited ("BSE") on 31st October, 2023.

In terms of the provisions of the Act read with the relevant rules made thereunder, the First Call Notice is being sent in electronic mode to holders of partly paid-up equity shares, whose e-mail address is registered with the Company or its Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd. ("RTA") or the Depository Participant(s) as on the Call Record Date. The First Call Notice alongwith detailed instructions and payment slip are also available on the Company's website at www.thealanscott.com. Physical copy of the First Call Notice along with the detailed instructions and payment slip are being sent to those shareholders:

- a. Who has not registered their e-mail address with the Company or its RTA or Depository Participant(s); or
- b. Who has specifically registered their request for the hard copy of the same.

Details of First Call Money:

Call Payment Period	From	To	Duration
	Thursday, 30 th November, 2023	Thursday, 14 th December, 2023	
Modes of Payment	a) Online ASBA	Through the Website of SCSBs	
	b) Physical ASBA	By submitting physical application to designated branch of SCSBs.	
	c) Online	Using the 3-in-1 online trading - demat - bank account whenever offered by brokers.	
	d) Cheque/ Demand Draft (made payable to)	a. Alan Scott Call Money - Escrow Collection - R A/c (for resident shareholders) b. Alan Scott Call Money - Escrow Collection - NR A/c (for Non-Resident Shareholders)	

Please visit <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmid=35> to refer to the list of existing SCSBs (self-certified syndicate Banks).

Payment Modes

- 1. For payment through physical/Online ASBA**
 Shareholders may pay the First Call Money through:
 i. **Online Mode:** by visiting the Website of SCSBs, to block the First Call Money payable in their ASBA Account;
 ii. **Physical Mode:** by submitting the physical application to the designated branch of the SCSBs, to block the First Call Money payable in their ASBA Account.
- 2. For payment through 3-in-1 Account**
 i. In accordance with the SEBI circular no: SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/238/2020 dated 8th December, 2020, shareholders can also make the First Call Money payment by using the facility of linked online trading - Demat - Bank Account (3-in-1 type accounts), provided by some of the brokers;
 ii. Shareholders must log into their demat account and under the relevant section proceed with payment for First Call Money of Alan Scott Enterprises Ltd.
 iii. Shareholders are requested to check with their respective brokers for exact process to be followed.
 iv. Shareholders may please note that this payment method can be used only if the concerned broker has made this facility available to their customer. The Company or Registrar will not be responsible for non-availability of this payment method to the shareholders.
- 3. For payment through cheque/Demand Draft**
 i. Shareholders are requested to send the payment slip alongwith cheque/Demand Draft made payable to:

Resident Shareholders	Alan Scott Call Money - Escrow Collection - R A/c
Non-Resident Shareholders	Alan Scott Call Money - Escrow Collection - NR A/c

 ii. The shareholder must inter alia, state the following details in the payment slip:
 a. Full Name of the Sole / First Shareholder;
 b. First Call Notice Number
 c. DP ID-Client ID / Folio Number; and
 d. No. of partly paid-up Equity Shares held.
 iii. The payment slip alongwith the amount payable by cheque or Demand Draft must be presented at ICICI Bank Ltd. at the following locations on or before Thursday, 14th December, 2023:

FOR RESIDENT SHAREHOLDER	Agra - ICICI Bank Ltd. No 6, 8-13, Ground Floor, Shanta Tower, Sanjay Place, Agra - 282002; Ahmedabad - ICICI Bank Ltd, JMC House, Opp. Parimal Gardens, Off C.G. Road, Ambawadi, Ahmedabad - 380006; Amritsar - ICICI Bank Ltd, 361, M.C International The Mall Amritsar, Punjab - 143001; Bangalore - ICICI Bank Ltd, 1, Shobha Pearl, Commissariat Road, Off M G Road, Ground Floor, Bangalore - 560025; Belgaum - ICICI Bank Ltd, 14, Khanapur Road, Rpd Cross, Tilak wadi, Belgaum - 590006; Bharuch - ICICI Bank Ltd, Blue Chip Sanatorium Compound, Sevashram Road, Panch Batti, Bharuch - 392001; Bhavnagar - ICICI Bank Ltd, Plot No. 2569, Ground Floor, Ratnadeep Complex, Opp. Central Salt Research Institute, Waghawadi Road, Bhavnagar Gujarat - 364002; Bhopal - ICICI Bank Ltd, Alankar Palace, Plot No. II, Zone II, M P Nagar, Bhopal, Mp - 462011; Bhubaneswar - ICICI Bank Ltd, Bhanajprava Building, Opp. Sriya Talkies, Unit 3, Janpath, Bhubaneswar - 751001; Chandigarh - ICICI Bank Ltd, S.C.O., 9/10, 11, Sector 9 D, Madhya Marg, Chandigarh - 160017; Chennai - ICICI Bank Ltd, 110, Prakash Presidium, Uthamar Gandhi Salai, Nungambakkam High Road, Chennai - 600034; Ernakulam - ICICI Bank Ltd, Ermege Square, M.G. Road, Ernakulam, Kochi - 682035; Gazibabad - ICICI Bank Ltd, Cheran Plaza, No.1090 Trichy Road - 641018; Dehradun - ICICI Bank Ltd, Ncr Plaza, 24, New Cantt Road, Hathibarkala, Dehradun, Uttarakhand - 248001; Faridabad - ICICI Bank Ltd, Sco 18 19, Huda Shopping Centre, Sector 14, Market Complex, Gurgaon, Haryana - 122001; Guwahati - ICICI Bank Ltd, Ground Floor, Shanti Complex, G.S. Road, Bhangagarh, Guwahati - 781005; Hubli - ICICI Bank Ltd, Eureka Junction, Travellers Bungalow Road, Hubli - 580029; Hyderabad - ICICI Bank Ltd, 6-2-1012, Tgv Mansions, Opp. Institution Of Engineers, Khairatabad, Hyderabad - 500004; Hissar - ICICI Bank Ltd, Plot No. 5760, Kamla Palace Road, Red Square Market, Hissar, Haryana - 125001; Indore - ICICI Bank Ltd, 4, Chhoti Khajrani, Malav Parisar, Indore - 452008; Jaipur - ICICI Bank Ltd, C99, shreeji Towers, Subhash Marg, Near Ahimsa Circle, C Scheme, Jaipur - 302001; Jamshedpur - ICICI Bank Ltd, Natraj Mansion, Main Road, Bistupur, Jamsheedpur Jharkhand - 831001; Jodhpur - ICICI Bank Ltd, Plot No. 10, 11, 12, Defence Colony/Sindhi Colony, Near Jaljoi Circle, Jodhpur - 342003; Kanpur - ICICI Bank Ltd, 16/106, J.S. Towers, The Mall, Kanpur, Uttar Pradesh - 208001; Kolhapur - ICICI Bank Ltd, Vasant Plaza, Near Udyog Bhavan, Rajaram Road, Rajarampuri, Kolhapur - 416001; Kolkata - ICICI Bank Ltd, 22, Sir R.N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001; Lucknow - ICICI Bank Ltd, Shalimar Tower, 31/54 M.G. Marg, Hazratganj, Lucknow - 226001; Ludhiana - ICICI Bank Ltd, Nehru SidhantKender Trust Building, Feroz Gandhi Market, Ludhiana, Punjab - 141001; Madurai - ICICI Bank Ltd, No. 21, 22, 23, North Chitral Street, Madurai - 625001; Mumbai - ICICI Bank Ltd, Capital Markets Division, 163, 5 th Floor, H. T. Parekh Marg, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020; Mysore - ICICI Bank Ltd, 2950, Aishwarya Arcade, 9 th Cross, Kaidasa Road, V.V. Mohalla, Mysore - 570002; Nagpur - ICICI Bank Ltd, Shiram Tower, Ground Floor, S V Patel Marg, Near NIT Building, Sadar - 440001; Nashik - ICICI Bank Ltd, Unit No. G 19, Utility Center, Opp To Rajiv Gandhi Bhavan, Sharanpur Road, Nasik - 422002; New Delhi - ICICI Bank Ltd, 9A, Phelps Building, Connaught Place, New Delhi - 110001; Noida - ICICI Bank Ltd, K1, Senior Mall, Sec18, Noida, Uttar Pradesh - 201301; Panaji - ICICI Bank Ltd, 65, Sindur Business Centre, Swami Vivekananda Road, Opp. Passport Office, Panaji Goa - 403001; Puducherry - ICICI Bank Ltd, 49 Mission Street, Puducherry - 605001; Pune - ICICI Bank Ltd, A Wing Shangrila Gardens Bund Garden Road Pune - 411001; Rajkot - ICICI Bank Ltd, Jai Hind Press Annex, Opp. Shardaabaug, Near Dharam Cinema, Rajkot - 360001; Ranchi - ICICI Bank Ltd, Main Road, Near Rattanlal Petrol Pump, Ranchi, Jharkhand - 834001; Salem - ICICI Bank Ltd, Swarnambigal Plaza, S.F.No. 6/5, Block No. 7, WardC, Omkar Main Road, Near Bus Stand, Salem, Tamilnadu - 636009; Surat - ICICI Bank Ltd, Platinum Plaza, Opp. V.T. Choksi Law College, Athwalines, Surat - 395007; Trichy - ICICI Bank Ltd, New no - 58, West Boulevard Road, Sivapooram complex, Trichy - 620002; Vadodara - ICICI Bank Ltd, 42, Hanbhakti Society, Nr. Chakri Circle, O.P. Road, Vadodara - 390007; Vijayawada - ICICI Bank Ltd, #401127, 128 129, Murali Chambers, M.G. Road, Vijayawada - 520010; Visakhapatnam - ICICI Bank Ltd, 47-14-18, Isnar Satya Sri Complex, Dwarkanagar Main Road, Visakhapatnam - 530016.
FOR NON-RESIDENT SHAREHOLDER	Mumbai - ICICI Bank Ltd, Capital Markets Division, 163, 5 th Floor, H. T. Parekh Marg, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020.
- iv. Shareholders residing at locations, where the ASBA facility of Bank's collection centers are not available, may send their First Call Money alongwith the completed payment slip by Registered Post/Speed Post at the office of the Registrar - PurvaShareRegistry (India) Pvt. Ltd., 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near LodhaExclus, Lower Parel East, Mumbai 400 011, Tel: 022-49700138/49614132, stating the requisite details alongwith cheque/Demand Draft payable at Mumbai, such that the same are received or before the last date of payment of the First Call Money i.e. Thursday, 14th December, 2023.
- v. Cheques/Demand draft should be drawn on such bank, including co-operative, which is situated at and is member or sub-member of Banker's clearing house located at the center wherever this First Call Notice is presented. Outstation cheques/Bank Drafts, money orders or postal orders will not be accepted. Post datedcheques will not be accepted and are liable to be rejected.
- vi. After the last date of payment i.e. Thursday, 14th December, 2023, the bank branches at the aforesaid locations will not accept any First Call Money Payment.
- vii. The Company will not be liable for any delayed receipt and reserves the right to reject such delayed receipts.
- viii. Payment slip should be completed in all respect. Payment slip found incomplete with regard to any of the particulars required to be given therein are liable to be rejected.

Non-payment

- Interest @ 8% p.a. will be payable for delay in payment of First Call beyond Thursday, 14th December, 2023 till the actual date of payment;
- The Company shall be entitled to deduct from any dividend payable to you, all sums of money outstanding on account of calls and interest due thereon in relation to the partly paid-up equity shares of the Company; and
- The Partly paid-up equity shares of the Company currently held by you including the amount already paid thereon are liable to be forfeited in accordance with the Articles of Association of the Company and Offer.

Other Information:

- Please note that the trading of the ₹ 3.50 partly paid-up equity shares of the Company (ISIN IN9273F01012) is suspended on the BSE on account of First Call. Further, the ISIN IN9273F01012 representing ₹ 3.50 partly paid-up equity shares has been suspended by NSDL and CDSL.
- Trading of ₹ 7/- partly paid-up equity shares of the Company under the new ISIN is expected to commence within a period of 2 to 3 weeks from the last date for making the payment of First Call.
- In case of non-receipt of First Call Notice, shareholder can request by e-mail or letter, for duplicate first call notice to the Registrar or may also down load the same from the Company's website www.thealanscott.com or Registrar's Website viz. www.purvashare.com. In such a case, however, the shareholder need to fill the DP ID-Client ID, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the first call money.
- The shareholder must mention in the application, his/her PAN number.
- All correspondence in this regard may be addressed to:
PURVA SHAREREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Exclusus, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, India | Tel: 022-4970 0138 / 4961 4132
 Email: support@purvashare.com | Investors Grievance E-mail: support@purvashare.com | Website: www.purvashare.com
 Contact Person: Ms. Deepali Dhuri | SEBI Registration Number: INR000001112

FOR ALAN SCOTT ENTERPRISES LTD. (Formerly Alan Scott Industries Ltd)
 Sd/-
SURESH P. JAIN
 MANAGING DIRECTOR
 DIN: 0048463

Place: Mumbai
 Date: 28.11.2023

नौसेना : अग्निवीर प्रशिक्षु ने महाराष्ट्र में की आत्महत्या

जन्सता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 नवंबर।

भारतीय नौसेना में 'अग्निवीर' का प्रशिक्षण ले रही 20 वर्षीय महिला ने मुंबई में 'आइएनएस हमला' में अपने छात्रावास के कमरे में फंदे से लटककर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि केरल की रहने वाली यह महिला पश्चिमी उपनगर मलाड में मालवानी इलाके में आइएनएस हमला में प्रशिक्षण ले रही थी।

उन्होंने बताया कि महिला ने सोमवार को सुबह अपने छात्रावास के कमरे में फंदे से लटककर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से कोई 'सुसाइड नोट' बरामद नहीं हुआ है और प्रतीत होता है कि महिला ने निजी कारणों से आत्महत्या की। उन्होंने बताया

प्रधानमंत्री कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे

जन्सता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 नवंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे।

यह रोजगार मेला देशभर के 37 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों/केन्द्र-शासित प्रदेशों में भर्तियां की जा रही हैं। देश भर से चुने गए नए कर्मचारियों सरकार के राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में योगदान करेंगे।

संदिग्ध गतिविधियों के कारण 70 लाख मोबाइल नंबर निलंबित

नई दिल्ली, 28 नवंबर (भाषा)।

वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के मकसद से संदिग्ध लेन-देन में शामिल 70 लाख मोबाइल नंबर निलंबित कर दिए हैं। वित्तीय साइबर सुरक्षा और बढ़ते डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी से संबंधित मुद्दों पर एक बैठक के बाद जोशी ने कहा कि बैंकों को इस संबंध में व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा कि ऐसी और बैठकें होंगी। अगली बैठक जनवरी में होगी। वित्तीय सेवा सचिव ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली धोखाधड़ी के संबंध में कहा कि राज्यों को इस मुद्दे पर गौर करने और आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। बैठक में व्यापारियों के केवाईसी मानकीकरण के संबंध में भी चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय कैसे सुनिश्चित किया जाए।

नवजातों की तस्करि करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार

बंगलुरु, 28 नवंबर (भाषा)।

बंगलुरु में पुलिस ने नवजात बच्चों की तस्करि करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर कथित सात एजेंट को गिरफ्तार किया है और इस पूरे प्रकरण में चिकित्सकों के भी शामिल होने का संदेह है। पुलिस आयुक्त वी दयानंद ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 दिन के एक बच्चे को तब बचाया गया जब गिरोह के सदस्यों को यहां राजराजेश्वरी नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में देखा गया। उन्होंने बताया कि गिरोह के सदस्य मुख्य रूप से पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के हैं। अधिकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सुहासिनी, गोमती, कन्नन रामास्वामी, हेमलता, शरण्या, महालक्ष्मी और राधा के रूप में की गई है।

देश

केरल की रहने वाली यह महिला पश्चिमी उपनगर मलाड में मालवानी इलाके में आइएनएस हमला में प्रशिक्षण ले रही थी।

अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से कोई 'सुसाइड नोट' बरामद नहीं हुआ है और प्रतीत होता है कि महिला ने निजी कारणों से आत्महत्या की।

कि अपने शुरुआती प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद महिला पिछले 15 दिन से इस केंद्र में प्रशिक्षण ले रही थी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मामले में दुर्घटनावश मौत रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की है और आगे की जांच जारी है। 'अग्निवीर' सेना में भर्ती के लिए वर्ष 2022 में शुरू की गई अल्पकालिक 'अग्निपथ' योजना के तहत सशस्त्र बलों में

भर्ती किए गए सैनिक हैं। सेना ने इससे पहले बताया था कि पिछले महीने पंजाब के मानसा जिले के निवासी अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी सेक्टर में संतरी की ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सेना ने कहा था कि सिंह के अंतिम संस्कार में सैन्य सम्मान नहीं दिया जाएगा क्योंकि खुद को चोट पहुंचाने के मामले में इस तरह का सम्मान नहीं दिया जाता है। सेना ने कहा कि वह सैनिकों में कोई भेदभाव नहीं करता है चाहे वे 'अग्निपथ' योजना को लागू किए जाने से पहले या बाद में सुरक्षा बल में शामिल हुए हों।

महाराष्ट्र के बूलढाणा जिले से एक अन्य 'अग्निवीर' अक्षय लक्ष्मण गावटे की पिछले महीने सियाचिन में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की थी कि उनके परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।



ALAN SCOTT ENTERPRISES LIMITED

(formerly known as Alan Scott Industries Limited)
Corporate Identification Number: L33100MH1994PLC076732
Registered Office: Unit no. 302, Kumar Plaza, 3rd Floor, Near Kalina Masjid, Kalina Kurla Road, Santacruz (East), Mumbai - 400029, Maharashtra, India. | Tel: +91 61786000 / 01
E-mail: alanscottcompliance@gmail.com | Website: thealanscott.com | Contact person: Sneha Shukla

This is only an advertisement for information purpose and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This notice does not constitute an offer or invitation or inducement to purchase or sell or to subscribe for, any new securities of the Company. All capitalised terms used and not defined here shall have a meaning assigned to them in the Letter of Offer dated 16th June, 2023 filed with BSE Limited and with SEBI for information and dissemination purposes.

FOR THE ATTENTION OF REGISTERED MEMBERS OF PARTLY PAID-UP SHARES (ISIN IN9273F01012) HELD AS ON RECORD DATE I.E. 10th NOVEMBER, 2023

FIRST CALL NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES

In terms of the Letter of Offer, the Company had issued partly paid-up Equity Shares on a rights basis, to its existing eligible shareholders at an issue price of ₹ 30/- per share including a share premium of ₹ 20/- per rights equity share, in the ratio of 1 (one) right equity share for every 1 (one) fully paid-up equity share held as on the record date i.e. 10th November, 2023.

In accordance with the terms of the issue as mentioned in the Letter of Offer, the Company had received ₹ 10/- (comprising ₹ 3.50 towards face value and ₹ 6.50 towards share premium) per partly paid-up equity share as application money and partly paid-up equity shares were allotted on 21st July, 2023. The balance amount of ₹ 20/- per partly paid equity share (comprising ₹ 6.50 towards face value and ₹ 13.50 towards share premium) is payable in one or more subsequent call(s) as determined by the Board of Directors of the Company at its sole discretion.

The Board of Directors of the Company (the 'Board') has at its meeting held on 31st October, 2023 decided to make the First Call of ₹ 10/- per partly paid-up equity share (comprising ₹ 3.50 towards face value and ₹ 6.50 towards security premium) in respect of 18,25,377 outstanding partly paid-up equity shares of the face value of ₹ 10/- each, issued by the Company on rights basis pursuant to the Letter of Offer.

The Board had fixed 10th November, 2023 as record date ('Call Record date') for the purpose of determining the holders of partly paid-up equity shares, to whom the notice for the First Call ('the First Call Notice') will be sent. The Company has intimated the Call Record Date to the BSE Limited ('BSE') on 31st October, 2023.

In terms of the provisions of the Act read with the relevant rules made thereunder, the First Call Notice is being sent in electronic mode to holders of partly paid-up equity shares, whose e-mail address is registered with the Company or its Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd. ('RTA') or the Depository Participant(s) as on the Call Record Date. The First Call Notice alongwith detailed instructions and payment slip are also available on the Company's website at www.thealanscott.com. Physical copy of the First Call Notice along with the detailed instructions and payment slip are being sent to those shareholders:

- Who has not registered their e-mail address with the Company or its RTA or Depository Participant(s); or
- Who has specifically registered their request for the hard copy of the same.

Details of First Call Money:

Call Payment Period	From	To	Duration
	Thursday, 30th November, 2023	Thursday, 14th December, 2023	15 days
Modes of Payment	a) Online ASBA	Through the Website of SCSBs	
	b) Physical ASBA	By submitting physical application to designated branch of SCSBs.	
	c) Online	Using the 3-in-1 online trading – demat – bank account whenever offered by brokers.	
	d) Cheque/ Demand Draft (made payable to)	a. Alan Scott Call Money – Escrow Collection - R A/c (for resident shareholders) b. Alan Scott Call Money – Escrow Collection - NR A/c (for Non-Resident Shareholders)	

Please visit <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecogndFpi=yes&intmid=35> to refer to the list of existing SCSBs (self-certified syndicate Banks).

Payment Modes

- For payment through physical/Online ASBA**
Shareholders may pay the First Call Money through:
 - Online Mode:** by visiting the Website of SCSBs, to block the First Call Money payable in their ASBA Account;
 - Physical Mode:** by submitting the physical application form to the designated branch of the SCSBs, to block the First Call Money payable in their ASBA Account.
- For payment through 3-in-1 Account**
 - In accordance with the SEBI circular no: SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/238/2020 dated 8th December, 2020, shareholders can also make the First Call Money payment by using the facility of linked online trading – Demat – Bank Account (3-in-1 type accounts), provided by some of the brokers;
 - Shareholders must log into their demat account and under the relevant section proceed with payment for First Call Money of Alan Scott Enterprises Ltd.
 - Shareholders are requested to check with their respective brokers for exact process to be followed.
 - Shareholders may please note that this payment method can be used only if the concerned broker has made this facility available to their customer. The Company or Registrar will not be responsible for non-availability of this payment method to the shareholders.
- For payment through cheque/Demand Draft**
 - Shareholders are requested to send the payment slip alongwith cheque/Demand Draft made payable to:

Resident Shareholders	Alan Scott Call Money – Escrow Collection - R A/c
Non-Resident Shareholders	Alan Scott Call Money – Escrow Collection - NR A/c

- The shareholder must inter alia, state the following details in the payment slip:
 - Full Name of the Sole / First Shareholder;
 - First Call Notice Number
 - DP ID-Client ID / Folio Number; and
 - No. of partly paid-up Equity Shares held.
- The payment slip alongwith the amount payable by cheque or Demand Draft must be presented at ICICI Bank Ltd. at the following locations on or before Thursday, 14th December, 2023:

FOR RESIDENT SHAREHOLDER	Agra - ICICI Bank Ltd, No. 6, 8- 13, Ground Floor, Shanta Tower, Sanjay Place, Agra - 282002; Ahmedabad - ICICI Bank Ltd, JMC House, Opp. Panimal Gardens, Off C.G. Road, Ambawadi, Ahmedabad - 380006; Amritsar - ICICI Bank Ltd, 361, M.C International The Mall Amritsar, Punjab - 143001; Bangalore - ICICI Bank Ltd, 1, Shobha Pearl, Commissariat Road, Off M G Road, Ground Floor, Bangalore - 560025; Belgaum - ICICI Bank Ltd, 14, Khanapur Road, Rpd Cross, Tilak wadi, Belgaum - 590006; Bharuch - ICICI Bank Ltd, Blue Chip Sanitorium Compound, Sevashram Road, Panch Batti, Bharuch - 392001; Bhavnagar - ICICI Bank Ltd, Plot No. 2569, Ground Floor, Ratnadeep Complex, Opp. Central Salt Research Institute, Waghwadi Road, Bhavnagar Gujarat - 364002; Bhopal - ICICI Bank Ltd, Alankar Palace, Plot No.11, Zone II, M P Nagar, Bhopal, Mp - 462011; Bhubaneswar - ICICI Bank Ltd, Banjapra Building, Opp. Srya Talkies, Unit 3, Jampath, Bhubaneswar - 751001; Chandigarh - ICICI Bank Ltd, S.C.O., 9, 10 11, Sector 9 D, Madhya Marg, Chandigarh - 160017; Chennai - ICICI Bank Ltd, 110, Prakash Presidium, Uttamar Gandhi Salai, Mungambakkam High Road, Chennai - 600034; Ermakulam - ICICI Bank Ltd, Emgee Square, M.G. Road, Ermakulam, Kochi - 682035; Coimbatore - ICICI Bank Ltd, Cheran Plaza, No.1090 Trichy Road - 641018; Dehradun - ICICI Bank Ltd, Ncr Plaza, 24, New Cantt Road, Hathibarkala, Dehradun, Uttarakhand - 249001; Faridabad - ICICI Bank Ltd, Booth No. 104105, District Centre, Sector 16, Faridabad, Haryana - 121007; Ghaziabad - ICICI Bank Ltd, R1/88, Raj Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201001; Gurgaon - ICICI Bank Ltd, 5822, Png Complex, Lakshminagar Main Road, Gurgaon, Haryana - 122001; Guwahati - ICICI Bank Ltd, Ground Floor, Shanti Complex, G.S. Road, Bhangagarh, Guwahati - 781005; Hubli - ICICI Bank Ltd, Eureka Junction, Travellers Bungalows Road, Hubli - 580029; Hyderabad - ICICI Bank Ltd, 6-2-1012, Tgv Mansions, Opp. Institution Of Engineers, Khairatabad, Hyderabad - 500031; Hissar - ICICI Bank Ltd, Plot No. 5760, Kamla Palace Road, Red Square Market, Hissar, Haryana - 125001; Indore - ICICI Bank Ltd, 4, Chhoti Khajuri, Malav Parisar, Indore - 452008; Jaipur - ICICI Bank Ltd, C99, shreeji Towers, Subhash Marg, Near Ahimsa Circle, C Scheme, Jaipur - 302001; Jamshedpur - ICICI Bank Ltd, Natraj Mansion, Main Road, Bistupur, Jamshedpur, Jharkhand - 831001; Jodhpur - ICICI Bank Ltd, Plot No. 10, 11, Refugee Colony/Sindhi Colony, Near Jaljoui Circle, Jodhpur-342003; Kanpur - ICICI Bank Ltd, 16/106, J.S. Towers, The Mall, Kanpur, Uttar Pradesh - 208001; Kolhapur - ICICI Bank Ltd, Vasant Park, Near Udyog Bhavan, Rajaram Road, Rajapuram, Kolhapur - 416001; Kolkata - ICICI Bank Ltd, 22, S.R.N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001; Lucknow - ICICI Bank Ltd, Shalimar Tower, 31/54 M.G.Marg, Hazratganj, Lucknow - 226001; Ludhiana - ICICI Bank Ltd, Nehru Sidhan/Kender Trust Building, Feroz Gandhi Market, Ludhiana, Punjab - 141001; Madurai - ICICI Bank Ltd, No.21, 22, 23, North Chitral Street, Madurai - 625001; Mumbai - ICICI Bank Ltd, Capital Markets Division, 163, 5 th Floor, H. T Parekh Marg, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020; Mysore - ICICI Bank Ltd, 2950, Aishwarya Arcade, 9 th Cross, Kalidasa Road, V.V. Mohalla, Mysore - 570002; Nagpur - ICICI Bank Ltd, Shriram Tower, Ground Floor, S V Patel Marg, Near Nit Building, Sadar - 440001; Nashik - ICICI Bank Ltd, Unit No. 9, 19, Utility Center, Opp To Rajiv Gandhi Bhavan, Sharanpur Road, Nasik - 422002; New Delhi - ICICI Bank Ltd, 9A, Phelps Building, Connaught Place, New Delhi - 110001; Noida - ICICI Bank Ltd, K1, Senior Mall, Sec18, Noida, Uttar Pradesh - 201001; Panaji - ICICI Bank Ltd, 65, Sindur Business Centre, Swami Vivekananda Road, Opp. Passport Office, Panaji Goa - 403001; Puducherry - ICICI Bank Ltd, 49 Mission Street, Puducherry - 605001; Pune - ICICI Bank Ltd, A Wing Shangrila Gardens Bund Garden Road Pune - 411001; Rajkot - ICICI Bank Ltd, Jal Hind Press Annex, Opp. Shardaabag, Near Dharam Cinema, Rajkot - 360001; Ranchi - ICICI Bank Ltd, Main Road, Near Rattanlal Petrol Pump, Ranchi, Jharkhand - 834001; Salem - ICICI Bank Ltd, Swarnambigai Plaza, S.F.No. 6/5, Block No. 7, WardC, Omalur Main Road, Near Bus Stand, Salem, Tamilnadu - 636009; Surat - ICICI Bank Ltd, Platinum Plaza, Opp. V.T. Choksi Law College, Athwalines, Surat - 395007; Trichy - ICICI Bank Ltd, New no - 58, West Boulevard Road, Sivapooana complex, Trichy - 620002; Vadodara - ICICI Bank Ltd, 42, Hanibhakti Society, Nr. Chakli Circle, O.P. Road, Vadodara - 390007; Vijayawada - ICICI Bank Ltd, #401127-128, Murali Chambers, M.G.Road, Vijayawada - 520010; Visakhapatnam - ICICI Bank Ltd, 47-14-18, Isnar Satya Sri Complex, Dwarkanagar Main Road, Visakhapatnam - 530016.
---------------------------------	---

- Shareholders residing at locations, where the ASBA facility of Bank's collection centers are not available, may send their First Call Money alongwith the completed payment slip by Registered Post/Speed Post at the office of the Registrar - PurvaShareRegistry (India) Pvt. Ltd., 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near LodhaExcelus, Lower Parel East, Mumbai 400 011, Tel: 022-49700138/49614132, stating the requisite details alongwith cheque/Demand Draft payable at Mumbai, such that the same are received or before the last date of payment of the First Call Money i.e. Thursday, 14th December, 2023.
- Chques/Demand draft should be drawn on such bank, including co-operative, which is situated at and is member or sub-member of Banker's clearing house located at the Center wherever this First Call Notice is presented. Outstation cheques/Bank Drafts, money orders or postal orders will not be accepted. Post datedcheques will not be accepted and are liable to be rejected.
- After the last date of payment i.e. Thursday, 14th December, 2023, the bank branches at the aforesaid locations will not accept any First Call Money Payment.
- The Company will not be liable for any delayed receipt and reserves the right to reject such delayed receipts.
- Payment slip should be completed in all respect. Payment slip found incomplete with regard to any of the particulars required to be given therein are liable to be rejected.

Non-payment

- Interest @ 8% p.a. will be payable for delay in payment of First Cal beyond Thursday, 14th December, 2023 till the actual date of payment;
- The Company shall be entitled to deduct from any dividend payable to you, all sums of money outstanding on account of calls and interest due thereon in relation to the partly paid-up equity shares of the Company; and
- The Partly paid-up equity shares of the Company currently held by you including the amount already paid thereon are liable to be forfeited in accordance with the Articles of Association of the Company and Letter of Offer.

Other Information:

- Please note that the trading of the ₹ 3.50 partly paid-up equity shares of the Company (ISIN IN9273F01012) is suspended on the BSE on account of First Call. Further, the ISIN IN9273F01012 representing ₹ 3.50 partly paid-up equity shares has been suspended by NSDL and CDSL.
- Trading of ₹ 7/- partly paid-up equity shares of the Company under the new ISIN is expected to commence within a period of 2 to 3 weeks from the last date for making the payment of First Call.
- In case of non-receipt of First Call Notice, shareholder can request by e-mail or letter, for duplicate first call notice to the Registrar or may also down load the same from the Company's website www.thealanscott.com or Registrar's Website viz. www.purvashare.com. In such a case, however, the shareholder need to fill the DP ID-Client ID, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the first call money.
- The shareholder must mention in the application, his/her PAN number.
- All correspondence in this regard may be addressed to:

PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, India | Tel: 022-4970 0138 / 4961 4132
Email: support@purvashare.com | Investors Grievance E-mail: support@purvashare.com | Website: www.purvashare.com
Contact Person: Ms. Deepali Dhuri | SEBI Registration Number: INR00001112

For ALAN SCOTT ENTERPRISES LTD.
(Formerly Alan Scott Industries Limited)

SURESH P. JAIN
MANAGING DIRECTOR
DIN: 0048463

AdBaaZ



पंजाब नैशनल बैंक **punjab national bank**
...रुठेने कर प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

पंजाब नेशनल बैंक वर्ष 2020 में सूचीबद्ध होने वाले मूल्यांकनकर्ताओं के पुनः पैलन में शामिल होने के साथ-साथ नए मूल्यांकनकर्ताओं के पैलन में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
विवरण के लिए, कृपया बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट www.pnbindia.in पर जाएं।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड

योग्य अंशधारकों हेतु सूचना – समता अंशों का पुनर्क्रय

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी") ने अभिलेख तिथि (शनिवार 25 नवंबर 2023) के अनुसार समता अंशधारक सभी योग्य अंशधारक(को) को पुनर्क्रय के लिये 28 नवंबर 2023 को प्रस्ताव पत्र एवं निविदा प्रपत्र प्रेषित कर दिया है तथा यही उन योग्य अंशधारक(को) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित कर दिया है, जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरीज के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत की है।

इसके अतिरिक्त, यदि पुनर्क्रय की कंपनी अथवा रजिस्ट्रार को किसी भी योग्य अंशधारक से प्रस्ताव पत्र/निविदा प्रपत्र की एक मौखिक प्रति के लिए प्रस्ताव पत्र के अनुच्छेद 20.1 के अंतर्गत विनिर्दिष्टानुसार विवरणों के साथ एक अनुरोध प्राप्त होता है, तो वह ऐसे योग्य अंशधारक को उपलब्ध कराया जायेगा।

पुनर्क्रय की गतिविधियों की अनुसूची निम्नानुसार प्रस्तुत है :

गतिविधि	दिवस एवं तिथि
अवधि के खुलने की तिथि	शुक्रवार 1 दिसंबर 2023
पुनर्क्रय प्रस्ताव अवधि समापन की तिथि	गुरुवार 7 दिसंबर 2023
*पुनर्क्रय के रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यक प्रलेख प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय (प्रस्ताव पत्र के पृष्ठ 36 पर बिंदु संख्या 20.10.2 का संदर्भ ग्रहण करें)	गुरुवार 7 दिसंबर 2023 को 5 बजे (आईएस्टी) तक

*यदि योग्य अंशधारक मौखिक प्रारूप में समता अंश धारण करता है।

*पुनर्क्रय के नियमों एवं शर्तों तथा अन्य विवरणों के लिए कृपया प्रस्ताव पत्र का संदर्भ ग्रहण करें।

पात्रता अनुपात के विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :

योग्य अंशधारक की श्रेणी	पुनर्क्रय का अनुपात (अर्थात् पुनर्क्रय पात्रता)*
लघु अंशधारकों के लिए आरक्षित श्रेणी	अभिलेख तिथि पर प्रत्येक 6 समता अंशों के लिए 1 समता अंश
अन्य सभी योग्य अंशधारकों के लिए सामान्य श्रेणी	अभिलेख तिथि पर प्रत्येक 209 समता अंशों के लिए 2 समता अंश

*प्रत्येक श्रेणी में पुनर्क्रय पात्रता के अनुसार पुनर्क्रय के अनुपात पर अधिक जानकारी के लिए, कृपया प्रस्ताव पत्र के पृष्ठ 33 पर अनुच्छेद 19.12 का संदर्भ ग्रहण करें।

योग्य अंशधारक नीचे दिए गए चरणों का पालन करके पुनर्क्रय के रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर अपनी पात्रता की जांच भी कर सकते हैं :

- <https://web.linkintime.co.in/Offer/Default.aspx> पर क्लिक करें।
- कंपनी का नाम चुनें - "टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड - बायबैक - 2023"
- होलिडिंग प्रकार का चयन करें - "डीमैट" या "मौखिक" या "पैन"
- ऊपर चुने गए विकल्प के आधार पर अपना "डीपीआईडी सीएलआईडी" या "फोलियो नंबर" या "पैन" प्रविष्ट करें।
- फिर व्यू बटन पर क्लिक करें
- पात्रता पहले से भरे हुए "स्वीकृति-सह-पावती प्रपत्र" में उपलब्ध करायी जाएगी

यदि आपको प्रस्ताव पत्र और निविदा प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो यह कंपनी की वेबसाइट (<https://www.tcs.com/investor-relations/events/tcs-buyback-2023>), सेबी (www.sebi.gov.in), एनएसई (www.nseindia.com), बीएसई (www.bseindia.com), पुनर्क्रय के प्रबन्धक (www.jmf.com) एवं पुनर्क्रय के रजिस्ट्रार (www.linkintime.co.in) पर भी उपलब्ध है।

इस विज्ञापन में उपयोग किए गए तथा यहां इसमें परिभाषित नहीं किये गये बड़े शब्दों का यही अर्थ होगा जो प्रस्ताव पत्र में वर्णित किया गया है।

कृते टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड

हरता /-
प्रदीप मनोहर गायतोंडे
कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई

दिनांक : 28 नवंबर 2023

पंजीकृत कार्यालय :

9वां तल, निर्मल बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L22210MH1995PLC084781

दूरभाष : +91 22 6778 9595

ईमेल : investor.relations@tcs.com वेबसाइट : www.tcs.com



CIN: L14106UP1995PLC019017
Registered Office: Sector-128, Noida-201 304, U.P.(India), Telephone: +91 (120) 2470800
Delhi Office: JA House', 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110 057
Telephone: +91 (11) 49828500 Fax: +91 (11) 26145389
Corporate Office: 6/4, Site IV, Industrial Area, Sahibabad, Distt. Ghaziabad-201010 Uttar Pradesh
Telephone: +91(0120)4963100, 4964100 Website: www.jalindia.com; E-mail: jal.investor@jalindia.co.in

POSTAL BALLOT NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that pursuant to Section 108 & 110 of Companies Act, 2013 (the Act), read with Rule 22 and 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR) and Secretarial Standards on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India (SS-2) and the relaxations and clarifications issued by the Ministry of Corporate Affairs, (MCA), from time to time. The Company has on 28th November, 2023, completed dispatch of Postal Ballot Notice dated 25th November, 2023, through e-mail only, seeking the assent/dissent of the Members to the proposed Resolutions. Please note that:

- The Notice has been sent to all the Members whose names appeared in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as received from Depositories i.e. National Securities Depository Limited ("NSDL"/Central Depository Services (India) Limited ("CDSL


● TROUBLED EDTECH SAYS IN TALKS TO SETTLE MATTER

BCCI drags Byju's to NCLT

Tribunal to hear the case on December 22

FE BUREAU Bengaluru, November 28

IN YET ANOTHER setback for Byju's, the Board of Control for Cricket in India (BCCI) has taken the troubled edtech firm to the National Company Law Tribunal (NCLT) in a likely dispute over pending dues related to sponsorship of the Indian cricket team, said a report on Tuesday. The case was filed by BCCI on September 8, but was officially registered by NCLT on November 15. The case between the BCCI and the parent company of Byju's, Think and Learn, was scheduled for a hearing on



THE CASE FILE

- The case was filed on September 8, but was officially registered by NCLT on November 15
- The case between the BCCI and the parent company of Byju's, Think and Learn, was scheduled for a hearing on November 28
- The development comes months after Byju's announced that it would not renew its branding partnerships, citing a cost-cutting strategy

November 28, according to the NCLT website. On Tuesday, the website updated that the case will be heard again on December 22. When contacted, a Byju's spokesperson said, "We are in discussions with the BCCI to settle the matter, and we hope to achieve that soon."

The development comes months after Byju's announced that it would not renew its branding partnerships, citing a cost-cutting strategy to achieve profitability. The company previously had three significant branding partnerships with the BCCI, ICC (International Cricket Council)

and FIFA (Federation Internationale de Football Association), all of which were up for renewal in 2023. However, the company said earlier this year that it would not renew any of them. It is not clear whether the BCCI case pertains to this or some other issue.

Tata Power targets to double profit, revenue by FY27: CEO

RAGHAVENDRA KAMATH Mumbai, November 28

TATA POWER IS looking to double its profit and revenue in the next three years with the major focus on renewable energy, chief executive and managing director Praveer Sinha said on Tuesday. "We will double our revenues and PAT (profit after tax) by FY27," he told reporters at the company's Bhivpuri power plant near Mumbai. Sinha said the company is expecting a profit of over ₹4,000 crore and expects revenues to cross ₹60,000 crore in FY24.

HIGH VOLTAGE



- Posted a PAT of ₹2,158 crore on revenues of ₹30,446 crore in H1FY24
- Logged a PAT of ₹3,810 cr on revenues of ₹56,033 cr in FY23
- It is deploying 45% of its capex in clean energy projects till FY27

PRAVEER SINHA, MD & CEO, Tata Power

In revenues, what we used to do in a full year, we are doing in half year. In PAT, what are we doing in a one year, we are doing it in a quarter.



and 1,000 MW of wind and 1,300 MW of hydel power. The capacities are expected to reach 9,500 MW in the next 24 months. The company is building a 1,000 MW pumped hydro storage project in Bhivpuri and another similar of 1,800 MW in Shirota near Pune. The company will invest ₹13,000 crore for both the projects. "We will do it in a debt-to-equity ratio of 70:30," Sinha said. "Bhivpuri will be operational by mid-2027 and Shirota by 2028," he added. The company is also exploring generation of 9 GW (gigawatt) of power in existing reservoirs.

marked a capex of ₹60,000 crore till FY27 and will deploy 45% of the amount in clean energy projects. "About 4000 MW (megawatt) is under various stages of construction which will be completed in 24 months," Sinha said. He further said by 2030, 70% of the company's capacities will be clean energy and by 2045, 100% will be clean energy. Currently, 40% of its

capacities are in clean energy. The company has 5,500 MW of clean energy now, including 3,200 MW of solar

Renewable push

The company has ear-

Adani Total starts green hydrogen blending

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, November 28

ADANI TOTAL GAS, the city gas joint venture of the Adani group and French energy giant TotalEnergies, has started blending green hydrogen in natural gas they sell to households for cooking purposes and industries as fuel in Ahmedabad.

The percentage of green hydrogen, produced by splitting water using renewable electricity, to be blended in gas will gradually be increased to 8%, the company said in a statement. "As part of the project, ATGL will employ the latest technologies to blend green hydrogen (GH2) with natural gas for over 4,000 residential and commercial customers at Ahmedabad, Gujarat," it said. GH2 is produced using electrolysis of water with electricity generated by renewable energy. Hydrogen blending is less carbon intensive than burning gas but has the same heating capabilities. The pilot project is expected to be commissioned by Q1FY25 (April 2024 to March 2025) and "the percentage of green hydrogen will be gradually increased in the blend to up to 8% or more, depending on regulatory approvals", the statement said. "After successfully completing the pilot, hydrogen blended fuel will be supplied stepwise to larger parts of the city and other license areas of AGTL," it said. "As per studies, an up to 8% hydrogen blend can reduce emission by up to 4%."

ATGL has the licence to retail CNG to automobiles and piped gas to household kitchens and industries in 38 geographical areas (GAs). It has full-fledged city gas distribution networks in Ahmedabad and Vadodara in Gujarat, Faridabad in Haryana and Khurja in Uttar Pradesh.

TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS - BUYBACK OF EQUITY SHARES

Tata Consultancy Services Limited ("Company") has sent the Letter of Offer and Tender Form dated November 28, 2023 for Buyback to all the Eligible Shareholder(s) holding Equity Shares as on the Record Date (Saturday, November 25, 2023) through electronic means to those Eligible Shareholder(s) who have registered their e-mail ids with the Company/Depositories.

Further, if the Company or the Registrar to the Buyback receives a request, along with details as specified under paragraph 20.1 of the Letter of Offer, from any Eligible Shareholder for a physical copy of the Letter of Offer/Tender Form, the same shall be provided to such Eligible Shareholder.

The schedule of Buyback activities is as follows:

Activity	Day and Date
Date of Opening of the Buyback Offer Period	Friday, December 1, 2023
Date of Closing of the Buyback Offer Period	Thursday, December 7, 2023
*Last date and time for receipt of required documents by the Registrar to the Buyback (Refer Form No. 20.10.2 on page 36 of Letter of Offer)	Thursday, December 7, 2023 by 5 p.m. (IST)

*If the Eligible Shareholder holds Equity Shares in physical form.

*For terms and conditions of Buyback and other details, please refer the Letter of Offer.

The details of the entitlement ratio is as follows:

Category of Eligible Shareholder	Ratio of Buyback (i.e. Buyback Entitlement)*
Reserved category for Small Shareholders	1 Equity Share for every 6 Equity Shares held on the Record Date
General category for all other Eligible Shareholders	2 Equity Shares for every 209 Equity Shares held on the Record Date

*For further information on Ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each Category, please refer para 19.12 on page 33 of the Letter of Offer.

Eligible Shareholders can also check their entitlement on the website of the Registrar to the Buyback by following the steps given below:

- 1) Click on <https://web.linkintime.co.in/Offer/Default.aspx>
- 2) Select the name of the Company - "Tata Consultancy Services Limited - Buyback - 2023"
- 3) Select holding type - "Demat" or "Physical" or "PAN"
- 4) Based on the option selected above, enter your "DPID CLID" or "Folio Number" or "PAN"
- 5) Then click on View button
- 6) The entitlement will be provided in the pre-filled "FORM OF ACCEPTANCE-CUM ACKNOWLEDGEMENT"

In case you have not received the Letter of Offer and Tender Form, the same is also available on the website of the Company at (<https://www.tcs.com/investor-relations/events/tcs-buyback-2023>), the SEBI (www.sebi.gov.in), the NSE (www.nseindia.com), the BSE (www.bseindia.com), the Manager to the Buyback (www.jmfli.com) and the Registrar to the Buyback (www.linkintime.co.in).

Capitalised terms used in this Advertisement and not defined herein shall have the same meaning as ascribed in the Letter of Offer.

For Tata Consultancy Services Limited
Sd/-
Pradeep Manohar Gaitonde
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : November 28, 2023

Registered Office:
9th Floor, Nirmal Building, Nariman Point, Mumbai 400 021.
Corporate Identity Number (CIN): L22210MH1995PLC084781
Tel: +91 22 6778 9595
Email: investor.relations@tcs.com Website: www.tcs.com

Alipay to exit Zomato in \$400-mn deal

M SRIRAM Mumbai, November 28

CHINESE PAYMENTS GROUP Alipay plans to sell its 3.4% stake in food delivery giant Zomato for nearly \$400 million through block deals on the stock exchanges, according to three sources and a Reuters review of the deal's term sheet. Alipay, owned by Ant Group, will offload its entire 3.4% stake in the deal, the term sheet seen by Reuters showed.



STAKE SALE

- Alipay, owned by Ant Group, will offload its entire 3.44% stake via block deals
- The block deals are set to be executed at ₹111.28 per share, a 2.2% discount to Zomato's close on Tuesday

Bank of America and Morgan Stanley are advisers on the deal, which is likely to be executed later this week on Indian exchanges, said the three sources, who declined to be named as the plan is private. Zomato, Bank of America

and Morgan Stanley did not immediately respond to a request for comment. Alipay also did not respond outside regular business hours. Zomato shares have surged more than 90% this year, after falling by more than half in 2022 when tech stocks struggled around the world.

Alipay "wants to cash out... the (market) timing is good," said the first source, referring to the rapid rise in Zomato's shares in recent months. The block deals are set to be executed at ₹111.28 per share, a 2.2% discount to Zomato's close on Tuesday, the term sheet said.

In October, Japan's SoftBank sold a 1.1% stake in Zomato, which is the country's biggest food delivery service. Demand for online ordering has rapidly grown in recent years, prompting companies like Zomato to aggressively expand. Alipay's exit from Zomato comes as other Chinese investors have been paring their stakes in Indian companies. In August, China's Antfin sold a 10.3% stake in Paytm. Tech stocks such as Zomato have staged a rebound after drubbing last year amid a market meltdown, when investors also raised questions about sky-high valuations of some Indian startups that had made their stock market debut in recent years. — REUTERS

ALAN SCOTT ENTERPRISES LIMITED
(Formerly known as Alan Scott Industries Limited)
Corporate Identification Number: L33100MH1994PLC076732
Registered Office: Unit no. 302, Kumar Plaza, 3rd Floor, Near Kalina Masjid, Kalina Kuria Road, Santacruz (East), Mumbai - 400029, Maharashtra, India. | Tel: +91 61786000 / 01
E-mail: alanscottcompliance@gmail.com | Website: thealanscott.com | Contact person: Sneha Shukla

FOR THE ATTENTION OF REGISTERED MEMBERS OF PARTLY PAID-UP SHARES (ISIN IN9273F01012) HELD AS ON RECORD DATE I.E. 10th NOVEMBER, 2023

FIRST CALL NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES

In terms of the Letter of Offer, the Company had issued partly paid-up Equity Shares on a rights basis, to its existing eligible shareholders at an issue price of ₹ 30/- per share including a share premium of ₹ 20/- per rights equity share, in the ratio of 1 (one) right equity share for every 1 (one) fully paid-up equity share held as on the record date i.e. 10th November, 2023.

In accordance with the terms of the issue as mentioned in the Letter of Offer, the Company had received ₹ 10/- (comprising ₹ 3.50 towards face value and ₹ 6.50 towards share premium) per partly paid-up equity share as application money and partly paid-up equity shares were allotted on 21st July, 2023. The balance amount of ₹ 20/- per partly paid equity share (comprising ₹ 6.50 towards face value and ₹ 13.50 towards share premium) is payable in one or more subsequent call(s) as determined by the Board of Directors of the Company at its sole discretion.

The Board of Directors of the Company ("Board") has at its meeting held on 31st October, 2023 decided to make the First Call of ₹ 10/- per partly paid-up equity share (comprising ₹ 3.50 towards face value and ₹ 6.50 towards security premium) in respect of 18,25,377 outstanding partly paid-up equity shares of the face value of ₹ 10/- each, issued by the Company on rights basis pursuant to the Letter of Offer.

The Board had fixed 10th November, 2023 as record date ("Call Record Date") for the purpose of determining the holders of partly paid-up equity shares, to whom the notice for the First Call ("the First Call Notice") will be sent. The Company has intimated the Call Record Date to the BSE Limited ("BSE") on 31st October, 2023.

In terms of the provisions of the Act read with the relevant rules made thereunder, the First Call Notice is being sent in electronic mode to holders of partly paid-up equity shares, whose e-mail address is registered with the Company or its Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd. ("RTA") or the Depository Participant(s) as on the Call Record Date. The First Call Notice alongwith detailed instructions and payment slip are also available on the Company's website at www.thealanscott.com. Physical copy of the First Call Notice along with the detailed instructions and payment slip are being sent to those shareholders:

- a. Who has not registered their e-mail address with the Company or its RTA or Depository Participant(s); or
- b. Who has specifically registered their request for the hard copy of the same.

Details of First Call Money:

Call Payment Period	From	To	Duration
	Thursday, 30 th November, 2023	Thursday, 14 th December, 2023	
Modes of Payment	a) Online ASBA	Through the Website of SCSBs	
	b) Physical ASBA	By submitting physical application to designated branch of SCSBs.	
	c) Online	Using the 3-in-1 online trading - demat - bank account whenever offered by brokers.	
	d) Cheque/ Demand Draft (made payable to)	a. Alan Scott Call Money - Escrow Collection - R A/c (for resident shareholders) b. Alan Scott Call Money - Escrow Collection - NR A/c (for Non-Resident Shareholders)	

Please visit <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmid=35> to refer to the list of existing SCSBs (self-certified syndicate Banks).

Payment Modes

- 1. For payment through physical/Online ASBA**
Shareholders may pay the First Call Money through:
i. **Online Mode:** by visiting the Website of SCSBs, to block the First Call Money payable in their ASBA Account;
ii. **Physical Mode:** by submitting the physical application to the designated branch of the SCSBs, to block the First Call Money payable in their ASBA Account.
- 2. For payment through 3-in-1 Account**
i. In accordance with the SEBI circular no: SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/238/2020 dated 8th December, 2020, shareholders can also make the First Call Money payment by using the facility of linked online trading - Demat - Bank Account (3-in-1 type accounts), provided by some of the brokers;
ii. Shareholders must log into their demat account and under the relevant section proceed with payment for First Call Money of Alan Scott Enterprises Ltd.
iii. Shareholders are requested to check with their respective brokers for exact process to be followed.
iv. Shareholders may please note that this payment method can be used only if the concerned broker has made this facility available to their customer. The Company or Registrar will not be responsible for non-availability of this payment method to the shareholders.
- 3. For payment through cheque/Demand Draft**
i. Shareholders are requested to send the payment slip alongwith cheque/Demand Draft made payable to:

Resident Shareholders	Alan Scott Call Money - Escrow Collection - R A/c
Non-Resident Shareholders	Alan Scott Call Money - Escrow Collection - NR A/c

- The shareholder must inter alia, state the following details in the payment slip:
 - a. Full Name of the Sole / First Shareholder;
 - b. First Call Notice Number
 - c. DP ID-Client ID / Folio Number; and
 - d. No. of partly paid-up Equity Shares held.
- The payment slip alongwith the amount payable by cheque or Demand Draft must be presented at ICICI Bank Ltd. at the following locations on or before Thursday, 14th December, 2023:

FOR RESIDENT SHAREHOLDER	Agra - ICICI Bank Ltd. No 6, 8-13, Ground Floor, Shanta Tower, Sanjay Place, Agra - 282002; Ahmedabad - ICICI Bank Ltd, JMC House, Opp. Parimal Gardens, Off C.G. Road, Ambawadi, Ahmedabad - 380006; Amritsar - ICICI Bank Ltd, 361, M.C International The Mall Amritsar, Punjab - 143001; Bangalore - ICICI Bank Ltd, 1, Shobha Pearl, Commissariat Road, Off M G Road, Ground Floor, Bangalore - 560025; Belgaum - ICICI Bank Ltd, 14, Khanapur Road, Rpd Cross, Tilak wadi, Belgaum - 590006; Bharuch - ICICI Bank Ltd, Blue Chip Sanatorium Compound, Sevashram Road, Panch Batti, Bharuch - 392001; Bhavnagar - ICICI Bank Ltd, Plot No. 2569, Ground Floor, Ratnadeep Complex, Opp. Central Salt Research Institute, Waghawadi Road, Bhavnagar Gujarat - 364002; Bhopal - ICICI Bank Ltd, Alankar Palace, Plot No. II, Zone II, M P Nagar, Bhopal, Mp - 462011; Bhubaneswar - ICICI Bank Ltd, Bhanujapra Building, Opp. Sriya Talkies, Unit 3, Janpath, Bhubaneswar - 751001; Chandigarh - ICICI Bank Ltd, S.C.O., 9/10, 11, Sector 9 D, Madhya Marg, Chandigarh - 160017; Chennai - ICICI Bank Ltd, 110, Prakash Presidium, Uthamar Gandhi Salai, Nungambakkam High Road, Chennai - 600034; Ernakulam - ICICI Bank Ltd, Ermege Square, M.G. Road, Ernakulam, Kochi - 682035; Gazibabad - ICICI Bank Ltd, Cheran Plaza, No.1090 Trichy Road - 641018; Dehradun - ICICI Bank Ltd, Ncr Plaza, 24, New Cantt Road, Hathibarkala, Dehradun, Uttarakhand - 248001; Faridabad - ICICI Bank Ltd, Sco 1819, Huda Shopping Centre, Sector14, Market Complex, Gurgaon, Haryana - 122001; Guwahati - ICICI Bank Ltd, Ground Floor, Shanti Complex, G.S. Road, Bhangagarh, Guwahati - 781005; Hubli - ICICI Bank Ltd, Eureka Junction, Travellers Bungalow Road, Hubli - 580029; Hyderabad - ICICI Bank Ltd, 6-2-1012, Tgv Mansions, Opp. Institution Of Engineers, Khairatabad, Hyderabad - 500004; Hissar - ICICI Bank Ltd, Plot No. 5760, Kamla Palace Road, Red Square Market, Hissar, Haryana - 125001; Indore - ICICI Bank Ltd, 4, Chhoti Khajrani, Malav Parisar, Indore - 452008; Jaipur - ICICI Bank Ltd, C99, shreeji Towers, Subhash Marg, Near Ahimsa Circle, C Scheme, Jaipur - 302001; Jamshedpur - ICICI Bank Ltd, Natraj Mansion, Main Road, Bistupur, Jamsheedpur Jharkhand - 831001; Jodhpur - ICICI Bank Ltd, Plot No. 10, 11, 12, Defence Colony/Sindhi Colony, Near Jaljoi Circle, Jodhpur - 342003; Kanpur - ICICI Bank Ltd, 16/106, J.S. Towers, The Mall, Kanpur, Uttar Pradesh - 208001; Kolhapur - ICICI Bank Ltd, Vasant Plaza, Near Udyog Bhavan, Rajaram Road, Rajarampuri, Kolhapur - 416001; Kolkata - ICICI Bank Ltd, 22, Sir R.N. Mukherjee Road, Kolkata - 700001; Lucknow - ICICI Bank Ltd, Shalimar Tower, 31/54 M.G. Marg, Hazratganj, Lucknow - 226001; Ludhiana - ICICI Bank Ltd, Nehru SidhantKender Trust Building, Feroz Gandhi Market, Ludhiana, Punjab - 141001; Madurai - ICICI Bank Ltd, No.21, 22, 23, North Chitral Street, Madurai - 625001; Mumbai - ICICI Bank Ltd, Capital Markets Division, 163, 5 th Floor, H. T. Parekh Marg, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400020; Mysore - ICICI Bank Ltd, 2950, Aishwarya Arcade, 9 th Cross, Kaidasa Road, V.V. Mohalla, Mysore - 570002; Nagpur - ICICI Bank Ltd, Shiram Tower, Ground Floor, S V Patel Marg, Near NIT Building, Sadar - 440001; Nashik - ICICI Bank Ltd, Unit No. G 19, Utility Center, Opp To Rajiv Gandhi Bhavan, Sharanpur Road, Nasik - 422002; New Delhi - ICICI Bank Ltd, 9A, Phelps Building, Connaught Place, New Delhi - 110001; Noida - ICICI Bank Ltd, K1, Senior Mall, Sec18, Noida, Uttar Pradesh - 201301; Panaji - ICICI Bank Ltd, 65, Sindur Business Centre, Swami Vivekananda Road, Opp. Passport Office, Panaji Goa - 403001; Puducherry - ICICI Bank Ltd, 49 Mission Street, Puducherry - 605001; Pune - ICICI Bank Ltd, A Wing Shangrila Gardens Band Garden Road Pune - 411001; Rajkot - ICICI Bank Ltd, Jai Hind Press Annex, Opp. Shardaabaug, Near Dharam Cinema, Rajkot - 360001; Ranchi - ICICI Bank Ltd, Main Road, Near Rattanail Petrol Pump, Ranchi, Jharkhand - 834001; Salem - ICICI Bank Ltd, Swarnambigal Plaza, S.F.No. 6/5, Block No. 7, WardC, Omkar Main Road, Near Bus Stand, Salem, Tamilnadu - 636009; Surat - ICICI Bank Ltd, Platinum Plaza, Opp. V.T. Choksi Law College, Athwalines, Surat - 395007; Trichy - ICICI Bank Ltd, New no - 58, West Boulevard Road, Sivapooram complex, Trichy - 620002; Vadodara - ICICI Bank Ltd, 42, Hanbhakti Society, Nr. Chaki Circle, O.P. Road, Vadodara - 390007; Vijayawada - ICICI Bank Ltd, #401127, 128 129, Murali Chambers, M.S.G. Road, Vijayawada - 520010; Visakhapatnam - ICICI Bank Ltd, 47-14-18, Isnar Satya Sri Complex, Dwarkanagar Main Road, Visakhapatnam - 530016.
FOR NON-RESIDENT SHAREHOLDER	Mumbai - ICICI Bank Ltd, Capital Markets Division, 163, 5 th Floor, H. T. Parekh Marg, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020.

- Shareholders residing at locations, where the ASBA facility of Bank's collection centers are not available, may send their First Call Money alongwith the completed payment slip by Registered Post/Speed Post at the office of the Registrar - PurvaShareRegistry (India) Pvt. Ltd., 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near LodhaExcelus, Lower Parel East, Mumbai 400 011, Tel: 022-49700138/49614132, stating the requisite details alongwith cheque/Demand Draft payable at Mumbai, such that the same are received or before the last date of payment of the First Call Money i.e. Thursday, 14th December, 2023.
- Chques/Demand draft should be drawn on such bank, including co-operative, which is situated at and is member or sub-member of Banker's clearing house located at the center wherever this First Call Notice is presented. Outstation cheques/Bank Drafts, money orders or postal orders will not be accepted. Post datedcheques will not be accepted and are liable to be rejected.
- After the last date of payment i.e. Thursday, 14th December, 2023, the bank branches at the aforesaid locations will not accept any First Call Money Payment.
- The Company will not be liable for any delayed receipt and reserves the right to reject such delayed receipts.
- Payment slip should be completed in all respect. Payment slip found incomplete with regard to any of the particulars required to be given therein are liable to be rejected.

Non-payment

- Interest @ 8% p.a. will be payable for delay in payment of First Call beyond Thursday, 14th December, 2023 till the actual date of payment;
- The Company shall be entitled to deduct from any dividend payable to you, all sums of money outstanding on account of calls and interest due thereon in relation to the partly paid-up equity shares of the Company; and
- The Partly paid-up equity shares of the Company currently held by you including the amount already paid thereon are liable to be forfeited in accordance with the Articles of Association of the Company and Offer.

Other Information:

- Please note that the trading of the ₹ 3.50 partly paid-up equity shares of the Company (ISIN IN9273F01012) is suspended on the BSE on account of First Call. Further, the ISIN IN9273F01012 representing ₹ 3.50 partly paid-up equity shares has been suspended by NSDL and CDSL.
- Trading of ₹ 7/- partly paid-up equity shares of the Company under the new ISIN is expected to commence within a period of 2 to 3 weeks from the last date for making the payment of First Call.
- In case of non-receipt of First Call Notice, shareholder can request by e-mail or letter, for duplicate first call notice to the Registrar or may also down load the same from the Company's website www.thealanscott.com or Registrar's Website viz. www.purvashare.com. In such a case, however, the shareholder need to fill the DP ID-Client ID, number of partly paid-up equity shares held and amount payable towards the first call money.
- The shareholder must mention in the application, his/her PAN number.
- All correspondence in this regard may be addressed to:

PURVA SHAREREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400011, Maharashtra, India | Tel: 022-4970 0138 / 4961 4132
Email: support@purvashare.com | Investors Grievance E-mail: support@purvashare.com | Website: www.purvashare.com
Contact Person: Ms. Deepali Dhuri | SEBI Registration Number: INR000001112

FOR ALAN SCOTT ENTERPRISES LTD.
(Formerly Alan Scott Industries Ltd)
Sd/-
SURESH P. JAIN
MANAGING DIRECTOR
DIN: 0048463

Place: Mumbai
Date: 28.11.2023